Sainik Finance & Industries Limited

CIN: L26912DL1991PLC045449 Website: www.sainikfinance.com

Regd.Office: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035. Tel.: 011-28315036 Fax: 011-28315044

Corp. Office: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurugram-122002, Haryana (India), Tel: 0124-2719000, Fax: 0124-2719100

E-mail: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com

Ref.No.

Dated

To,
The Manager- Listing
BSE Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Sub: Submission of cutting of newspapers in which advance notice of Board Meeting and Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020 were published.

Dear Sir,

Please find attached herewith cutting of newspapers (Financial Express and Haribhoomi) in which advance notice of Board Meeting and unaudited Financial Results for the quarter 31st December, 2020 were published.

Request you to take the same on your records.

Thanking You, Yours faithfully,

For Sainik Finance & Industries Limited

Jagoish Chandra Chief Financial Officer

Dated 16th February, 2021

Place: Gurugram

वायरल हुए वीडियो और फोटो के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा

गाजीपुर बॉर्डर पर कीलों को नहीं हटाया गया, बदली गई जगह

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

सिंघु बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। नए कृषि कानुनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर भी कीलें लगाई हुई थी। बृहस्पतिवार को गाजीपुर बॉर्डर के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। वीडियो में एक युवक सड़क पर लगी कीलें उखाड़ता हुआ नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

डीसीपी (ईस्ट) दीपक यादव ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजामों में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जो फोटो और वीडियो सार्वजनिक हो रही है, जिसमें एक युवक गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें निकालते हुए दिखाई दे रहा है। वह कीलें हटा नहीं रहा है, ब्लिक वह कीलों को एक जगह से उखाडकर दूसरी जगह पर लगा रहा है। इसके अलावा प्रदर्शन पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को वेल्डिंग की दुकान पर काम



करने वाले एक कर्मचारी से इन कीलों को सड़क से उखड़वाया था। दिनभर इंटरनेट

कीलों को लेकर फैल रही थी कईं अफवाएं

अपने मोबाइल फोन में उसकी वीडियो बनाने लगा. कीलें उखाइने को लेकर तरह-तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हो तक लिख दिया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर कीलों को सड़क से उखड़वा दिया है। बता दे पुलिस अधिकारी ने बताया कि कीलों को एक जंगह से हटाकर दूसरी जंगह

मीडिया पर कीलें लगने और उखडवाने का मद्दा छाया रहा। जिस वक्त इन कीलों को उखाडा जा रहा था, तब दस विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। बुधवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने कुछ कीलों की धार को कुंद कर दिया था, कुछ किलें तोड़ भी दी थी। प्रदर्शनकारियों ने चेताया भी था कि वह बाकी की किलों को भी तोड़ देंगे। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह अचानक एक कर्मचारी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा और कीलों को



बारिश के चलते कीलों पर ढकी गई तिरपाल



नई दिल्ली। सिंघु बॉर्डर के साथ–साथ गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। रिजर्व पुलिस बल और सीआइएसएफ के जवानों की तैनातीं दो सप्ताह तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर की तरह ही किसान प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए सिंघु बॉर्डर पर भी कील लगा दी गई है। बारिश की वजह से अभी तिरपाल से ढका हुआ है, जरूरत पढ़ने पर इसे हटा दिया जाएगा।

26 जनवरी की हिंसा में खालिस्तानी लिंक मिलने का पुलिस ने किया

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हिंसा को भड़काने के लिये सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा एक खालिस्तानी ग्रुप ने इसकी योजना कई दिन पहले से तैयार की थी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी।

पुलिस ने इस संबंध में एक केस भी दर्ज किया है। इसकी जांच साइबर सेल को दी गई है। पुलिस अकाउंट की ऑनरशिप रखने वालों की धरपकड़ करेगी। स्पेशल सीपी क्राइम प्रवीर रंजन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एक प्रैसवार्ता के दौरान

बताया कि किसान आंदोलन में गडबडी फैलाने की बात ट्रैक्टर परेड से पहले ही पुलिस के संज्ञान में आ गई थी। इसके बारे गया था। पुलिस ने पहले भी बताया था कि 300 से ज्यांबा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये कम्यूनिटी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसकी जांच के बौरान पुलिस को एक अकाउंट में ऐसा मिला जिससे साफ हो गया कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी ग्रुप खुलकर शामिल है। वह अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिये

 कई दिन पहले से बनाई जा रही थी ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की योजना

सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ खुलासा

इस एक अकाउंट में अपलोड किये गये टूल किट नामक डॉक्युमेंट में गणतंत्र दिवस कें दिन भड़की हिंसा की योजना तैयार की गई थी। कई दिन पहले से इसे सर्कूलेट किया जा रहा था। इसकी जांच को आंगे बढाया गया तो पता चला कि पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जोकि कनाडा का खालिस्तानी

ग्रूप है हिंसा को भडकाने में शामिल पाया गया। वह शरूआत से ही टैक्टर रैली पर नजर रख रहा था। उसने एक्शन प्लान बनाया था कि गणतंत्र दिवस पर डिजीटल स्ट्राइक करना है। इसके लिये लोगों को बताया गया था। बाद में अकाउंट से उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन पुलिस के संज्ञान में आया तो इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। टूल किट के अथॉराइज्ड संचालकों के खिलाफे साइबर सेल द्वारा की जांच की जाएगी। इस केस में फिलहाल किसी को नामजब नहीं किया

सुरक्षाबलों से डीटीसी बस वापस लेकर केजरीवाल ने फिर से अपनी अराजकतावादी सोच को दर्शाया है : आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सुरक्षाबलों से डीटीसी बस वापस लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से अपनी अराजकतावादी सोच को दर्शाया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने गुरूवार को दिल्ली सरकार पर उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए वे उपद्ववियों के साथ मिलकर दिल्ली को अराजकतावाद की आग में झोंकना चाहते है। गुप्ता ने उप राज्यपाल अनिल बैजल से मांग है कि वे इस पर संज्ञान लेकर बसें वापस दिलाएं। वहीं, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिधूड़ी, गौतम गंभीर और हंसराज हंस ने केजरीवाल सरकार के

दिल्लीवसियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं सीएम : लेखी

नर्ड दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि पंजाब में चूनाव लड़ने के लिए केजरीवाल दिल्लीवसियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अंराजक चेहरा जनता के सामने आ चुका है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई 576 डीटीसी बसों को वापस लौटाने का निर्देश दिया

कि ना नियम, ना प्रतिबद्धता, सिर्फ अपना समायोजन होना है। दिल्ली पुलिस की सेवा में तैनात

केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने डीटीसी मामले को लेकर कहा कि सीएम केजरीवाल का मतलब है डीटीसी बसों को वापस बुलाकर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पंजाब में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका यह तानाशाही रवैया निंदनीय है।

किसी भी हद तक जा सकते हैं केजरीवाल : डॉ. हर्षवर्धन

दिल्ली की जनता को नीचा दिखा रहे हैं केजरीवाल: प्रवेश साहिब सिंह

पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की जनता का वोट लेकर अब उसी जनता को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रावण के दस चेहरे थे लेकिन सीएम केजरीवाल के हजार चेहरे हैं। शर्म की बात है कि जनता की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस से बसें वापस लेकर आंढोलनकारियों का हौसला बढाने का नीच काम अरविंढ केजरीवाल ने किया है।

एटीएम तोडने के दर्जनों मामलों में शामिल रहा मेवाती बदमाश गिरफ्तार

हरिभुमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

स्पेशल सेल ने एक मेवाती बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसका नाम लियाकत उर्फ लक्का है। इसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, तीन कारतूस बरामद किए हैं। इस बदमाश के पकड़े जाने पर एटीएम से कैश चोरी के 12 मामले सुलझाने का दावा किया है। आरोपी दिल्ली और हरियाणा में दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है।

डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाह के मताबिक लियाकत नूह मेवात हरियाणा का रहने वाला है। बुधवार रात करीब पौने 11 बजे इसे एक सचना के आधार पर महरौली बदरपुर रोड पर धौला पीर के नजदींक से दबोचा गया। पलिस को इसने पिस्टल निकाल गोली चलाने की धमकी दे फायरिंग भी करने की कोशिश की थी। पिछले दो महीने से लगातार दिल्ली में एटीएम मशीन



को काटकर करीब 50 लाख तक की नकदी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस गैंग के सदस्य एटीएम बूथ में घुसकर सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करते और फिर गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन काट कैश ट्रे निकाल लेते थे। आरोपी वारदात के समय क्रेटा और स्क्रॉपियो जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस लियाकत गैंग के छह सदस्यों की पहचान कर चुकी है। जिनकी तलाश में पुलिस की

नई दिल्ली। आर्थिक अपराध शाखा ने पोंजी स्कीम की आड में लाखों की धीखाधडी करने वाले शिव ओम ज्वैलर्स फर्म के मालिक सेक्टर 37 गुडगांव निवासी शिवम चतुर्वेदी (२९) को गिरफ्तार किया है। इस पर लोगों को विभिन्न स्कीम में मोटे मुनाफे के बहाने रकम निवेश करवाई और प्रतिमाहँ रिर्टन देने का वादा किया था। सैकडों लोगों से वह मोटी रकम ऐंठ चुका था। इसके खिलाफ ३४ से ज्यादा शिकायतें पुलिस को मिल चुकी थी। आरोपी रकम लेकर अंडरग्राउंड हो गयाँ था। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिली थी कि आरोपी पोंजी स्कीम चलाता था जिसके तहत वह वह शिव ओम ज्वैलर्स नाम की फर्म में लोगों से रकम निवेश करवाता है। उन्हें निवेश की गई रकम के एवज में प्रतिमाह के हिसाब से रिर्टन ढेने का वाढा करता था। वह भी सोने के रूप में। जब उसने ऐसा नहीं किया तो लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। खुद को फंसते देख आरोपी अंडरग्राउंड हो गया था। पिछले साल पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधडी का मकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया शिव ओम ज्वैलर्स नाम की फर्म लोंगों से किसी तरह की स्कीम के नाम पर रुपए वसलने के लिए अधिकत नहीं है। आरोपी किटी कमेटी कार्ड पर मॉलिक के तौर पर निवेशकों से कैश वसूल हस्ताक्षर करता था। लोगों को एक से सात महीनें में लक्की ड्रॉ में दस हजार कीमत का सोना जीतने का झांसा भी दिया जाता था। पुलिस ने आरोपी को तीन फरवरी को इसे गुडगांव स्थित एक किराये के अपार्टमेंट से

नाखों की धोखाधड़ी के आरोप में जूलरी फर्म का मालिक गिरफ्तार नौकरी का झांसा देकर उगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश

हरिभूमि न्यूज 🕪 नई दिल्ली

गोविंदपुरी पुलिस ने मालवीय नगर में लोगों को ठगने के लिए खोले गए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस कॉल सेंटर में बैठकर ठग लोगों को विभिन्न एयरलाइंस में नौकरी देने और ऑनलाइन शॉपिंग में बम्पर गिफ्ट का झांसा देकर ठगी का गौरखधंधा चला रहे थे। इस कॉल सेंटर में एक सपरवाइजर के अधीन 16 युवतियां कॉल एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थीं। पुलिस ने इस केस में अभी सिर्फ गोविंदपुरी कालकाजी निवासी आकाश प्रसाद को गिरफ्तार किया है।

डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि तीन फरवरी को साइबर सेल इंस्पेक्टर अजीत कमार की टीम ने एक शिकायत पर भगत सिंह पार्क के नजदीक बेसमेंट में चल रहे इस कॉल सेंटर में दिबश डाली थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला यह कॉल सेंटर पिछले महीने के दूसरे सप्ताह से चल रहा था। जिसके पार्टनर हर्ष और विनोद हैं। घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि इन दोनों ने पिछले साल दिसंबर में उनसे संपर्क किया था।

बेसमेंट को किराए पर एजयकेशन कोचिंग सेंटर खोलने की बात कहकर लिया था। आकाश ने पछताछ में बताया कि हर्ष और विनोद ने अपने एप के जरिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी के लिए विज्ञापन दिए थे। काम पर रखे जाने के दौरान इन्हें फर्जी कॉल्स की ट्रेनिंग दी गई। दोनों मुख्य आरोपियों ने जॉब फ्रॉड के लिए क्वीकर और ऑनलाइन शॉप फ्रॉड के लिए एक अन्य वेबसाइट बना रखी थी। आरोपियों ने बकायदा लोगों को झांसो में लेने और पीडितों की जेब से रुपए निकलवने के तौर तरीके भी बताए थे। आखिर कैसे वे जॉब के मद्देनजर रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू व नियुक्त पत्र के बहाने लोगों से रुपए वसूल सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग पर गिफ्ट के बहाने भी ठगी के तरीके बताए गए। पुलिस ने इस कॉल सेंटर से तीन कम्पयटर सिस्टम, तीन लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन के लिए वाईफाई, चार वॉकी टॉकी आदि सामान जब्त किया है। आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अब तक 80 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। आरोपी 12वीं तक पढ़ा है जो पहले एक निजी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यटिव के तौर पर काम करता था।

नरेला पुलिस के हत्थे चढ़ा मुन्ना भाई नई दिल्ली। नरेला थाना पुलिस ने एक

मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक अन्य युवक की जगह पेपर देने आया है। पंकडे गए आरोपी का नाम रिंकू है। पुलिस की माने तो आरोपी बादल नामक एक युवक की जगह पेपर ढेने आया था। फिलहाल बादल अपने घर से फरार है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बादल की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, नरेला स्थित एक स्कूल में र्सी-टीईटी की परीक्षा हुई थी। जिसमें अमिरुश्मा. अशोक रावत और राजेश की देखरेख में परिक्षार्थी पेपर दे रहे थे। चैकिंग के दौरान इन्होंने रिंकु को पकडा और मामले की सचना पलिस को ढी। जांच में पता चला कि आरोपी बादल नामक एक युवक की जगह पेपर दे रहा था। आरोपी और फरार बाढल ढोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बादल ने उसको पेपर देने के लिए सहायता मांगी थी। जिसके लिए रिंक

तैयार हो गया था।

INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohta Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035 E-mail: info@sainik.org
Website: www.sainikfinance.com
CIN: L26912DL1991PLC045449

SAINIK FINANCE &

one No.: 011-28315036/0124-2719000 Fax No.: 011-28315044/ 0124-2719100 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th day of February, 2021 at 12:00 Noon, inter alia, to consider & approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020, to place before the Board the Limited Review Report given by the statutory auditors of the Company on these Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 and to discuss & approve all other matters with the permission of the Chair as may be deemed fit for the business of the Company

The Trading Window for dealing in the shares of the Company by Designated Persons and their connected persons is closed from 1st January, 2021 till 48 hours after declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 by the Board of

Directors of the Company. This said information is also available on the Company's website at www.sainikfinance.com

and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com

By the order of the Board For Sainik Finance & Industries Limited Place: Gurugram Date: 4th February, 2021 Rudra Sen Sindhu

Director

(CIN: L74899DL1994PLC058964) Regd. Office: Building No. 5, 1st Floor, Pusa Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005 Landline: (91)-11-47177000 E-mail: deepika@provestment.net Website: www.provestment.net

PROVESTMENT SERVICES LIMITED

पर्ल अपार्टमेंट्स लिमिटेड (CIN: L70101DL 1979PL C009901) पनी. कार्यालय : 903, रोहित हाठस. ३, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

Tel Mo.: +91-11-23725826/27/28

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लोंगेशंस एवं घोषणा अपेक्षाएं)

सुचना

नयमनों, 2015 के नियमन 47 के साथ पठित नियमन 29

के तहत एतद् हारा सूचना दो जानी है कि सेबी (एसओडीआर) निवमनी, 2015 के नियमन 33 के तहत

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाहो और नौ माह हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणाणी पर विचार करने और

अनुमोदन करने के लिये पत्ते अमार्टमेंट्स लिमिटेड के निर्देशक मंडल की एक बैठक युक्कतार, 12 फरवरी, 2021 को 903, रोहित झडस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई

दिल्ली-110001 में ल्यित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय

www.pearlapariments.co.in से देखी जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंड चैनसाइट, जहां कम्पनी के इक्विटी

शेयर सूचोंकृत हैं अर्थात www.nsei.in (मैट्टीपीलिटन स्टॉक एक्सर्नेज ऑफ इंडिया लिमिटेड) से भी देखी जा

कृते पर्ल अपार्टमेंट्स लिमिटेड

कम्पनी साँचव एवं अनुपालन अधिकारी

मोहम्मद विलाल

में आयोजित की जानी निर्धारित है।

सकती है।

क्रमान - जर्न निकर्ती

दिनांक | 04.02.2021

उथत सूचना क्रापनी

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) (a) & Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is February, 2021 at 04:00 P.M. To be convened at the Registered Office of the Company situated at Building No. 5, First Floor, Pusa Road W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005 to consider & approve, interalia, the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Third Quarter ended on 31st December, 2020.

Kindly note that, pursuant to the Company's Code of Conduct framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ('the code'), Trading Window for dealing in shares of the Company, for persons specified under the Code, shall remain closed from Friday, 01st January, 2021 till the end of 48 hours, after the financial results of the company for the guarter ending 31st December, 2020,

become generally available The said notice may be accessed on the Company's website at www.provestment.net and may also be accessed on the Stock Exchange at

By Order of the Board PROVESTMENT SERVICES LIMITED

Deepika Rajput Date: 04.02.2021 Company Secretary & Compliance Officer

द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने किया गिरफ्तार

ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को सप्लाई करता था फर्जी सिम कार्ड

द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने धोखाधडी के एक मामले में रहे जालसाज को गिरफ्तार किया है। इसका नाम अभिषेक बताया गया है। एक साल से स्पेशल सेल को भी इसकी तलाश थी। इस पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को फर्जी सिमकाडर्स उपलब्ध करवाने का



आरोप है। पलिस के अनुसार इस जालसाज के बारे में जानकारी

हाल ही में टेक्निकल सर्विलांस से इसके बारे में पता चला। इसके बाद इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर हरि सिंह, एएसआई हंस आदि की टीम ने द्वारका नॉर्थ थाना इलाके में ट्रैप लगाकर इसे दबोच लिया। आरोपी खुद को एक बड़े प्राइवेट बैंक का कस्टमर केयर एग्जीक्युटिव बताता

लोगों को झांसे में लेकर उनके अकाउंट से मोटी रकम निकालने वाले ठगों को यह फर्जी सिमकार्ड्स उपलब्ध करवाता था इस मामले में पुलिस पहले ही लवकेश दत्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जबिक भगवती गार्डन, द्वारका मोड़ का रहने वाला आकाश एक साल से

चोरी की बाइक से लूटपाट व स्नैचिंग करने वाले तींन पकडे

हरिभूमि न्यूज नई दिल्ली। बुराड़ी थाना पुलिस ने पैट्रोलिंग के दौरान लुटपाट व स्नैचिंग करने वाले तीन लोगों को पकड़ा है**।** पकडे गए आरोपियों में दो नाबालिग है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दिलीप उर्फ बाबा (23) है। आरोपी दिलीप सुंदर नगरी का रहने वाला है। पुलिस की माने तो आरोपी दिलीप पर 12 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक, स्कूटी और लूट गए छह फोन बरामद किए है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बांद पुलिस छह मामले सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस आरोपी पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी (नॉर्थ) अंटो अल्फोंस ने बताया कि गत दो फरवरी को एसएचओ बुराडी, सुरेश कुमार की देखरेख में एएसआई उमेश, हेड कांस्टेबल हरपाल, कांस्टेबल कुलढ़ीप और नरेंद्र पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही पुलिसकर्मी सरकारी अस्पताल, बुराड़ी, 100 फुटा रोड़ पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तीन लड़के बाइक पर सवार है। संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने उन्हें रूकने का इशारा किया। रूकने की वह वहां से भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपियों की बाइक का नंबर भी फर्जी था और बाइक बुराडी इलाके से चुराई गई थी। तलाशी लेने पर पुलिस को आरोपियों के पास से छह फोन बरामद हुए।

FINANCIAL EXPRESS

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - I

SCO No. 33-34-35, 2nd Floor, Sector-17-A, Chandigarh (Area of Jurisdiction Himachal Pradesh & Punjab Distt. from (A to J)

Notice of Demand From Certificate Debtor/ Defaulter (See Secs. 25 to 29 of the RDDBFI Act. 1993 r/w Rule 2 of Second Schedule of Income Tax Act, 1961).

Dy. No. 6743

PUBLICATION NOTICE RC NO. 2163/2018

UBI V/S MAA DRAPUDI MILK PRODUCTS PVT LTD.

1. M/s Maa Drapuri Milk Products Pvt. Ltd. having its office at Machaki Kalan, Sadiq Road, Faridkot through its Directors Vijay Kumar Gupta, Shagandeep Gupta, Punit Gupta and Munish Gupta.

2. Sh. Vijay Kumar Gupta S/o Sh. Banarasi Dass Gupta, R/o 18, Street No. 1. Guru Nanak Colony, Faridkot 151203.

3. Shagandeep Gupta S/o Sh. Vijay Kumar Gupta, R/o 18, Street No. 1, Guru Nanak Colony, Faridkot 151203.

4. Punit Kumar Gupta S/o Ashok Kumar Gupta, R/o 23, Street No. 1, Guru Nanak Colony, Faridkot 151203.

5. Manish Kumar Gupta S/o Sh. Ashok Kumar Gupta, R/o 18, Street No. 1, Guru Nanak Colony, Faridkot 151203

6. Smt. Sharda Rani W/o Ashok Kumar Gupta, R/o 23, Street No. 1, Guru Nanak Colony, Faridkot 151203.

Where as a Rocovery Certificate bearing OA No. 2173/2017 dated 31.05.2018 had been forwarded under sub section (7) of Sec. 19 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 by the Presiding Officer, the Debts Recovery Tribunal- I, Chandigarh for the recovery of sum of Rs. 2,42,41,152.15/- with interest @12.55 p.a. on cash credit limit and @12.80% p.a. on term loan with monthly rests from the date of filing of the OA. i.e. 28,11,2016 till realization with costs given in the certificate and the said sum has become due from you.

You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipt of this notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the provision

Proceedings in this matter are further listed for 22.03.2021

Given under my hand and seal at Chandigarh on 15.12.2020

(S.K. Tiwary) **Recovery Officer** DRT-I, Chandigarh

Date: 21.12.20

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035 E-mail: info@sainik.org

Website: www.sainikfinance.com CIN: L26912DL1991PLC045449 Telephone No.: 011-28315036/0124-2719000 Fax No.: 011-28315044/ 0124-2719100

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 12th day of February, 2021 at 12:00 Noon, inter alia, to consider & approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020, to place before the Board the Limited Review Report given by the statutory auditors of the Company on these Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended on 31st December, 2020, and to discuss & approve all other matters with the permission of the Chair as may be deemed fit for the business of the Company


The Trading Window for dealing in the shares of the Company by Designated Persons and their connected persons is closed from 1st January, 2021 till 48 hours after declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 by the Board of Directors of the Company.

This said information is also available on the Company's website at www.sainikfinance.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board For Sainik Finance & Industries Limited

Place: Gurugram Rudra Sen Sindhu Date: 4th February, 2021 Director

(Rs. in Crores)



076

Extract of the consc

ended December 31, 2020

Rs. in Million

Par	date for rent nded ber 20	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2019	Previous year ended March 31, 2020					
A STATE OF THE STA	ITED	UNAUDITED	AUDITED					
Continuing operations Revenue from operations	3.77	21,333.25	27,519.71					
Net Profit from ordinary act Exceptional Items and tax (*	Part A	2,425.70	2,395.89					
Net Profit / (Loss) from ordi		2,725.40	546.80					
Net Profit/ (Loss) from ordin	2.13	2,507.44	433.57					
tax from continuing operati	17.72	(135.89)	(127.61)					
Profit/(loss) after tax from d	32.63	2,620.41	676.66					
Total comprehensive incom Equity share capital	96.35	895.53	895.65 24,378.52					
Other equity carnings per equity shar		1						
(face value of Rs. 10/- ea	24.82	26.83	4.06					
(a) Basic EPS (Rs.)	24.79	26.82	4.06					
(b) Diluted EPS (Rs.)	-		TANK TO THE					

(*) The Company did not ha

Ps. in Million

the state of the s	RJ. III MINITON						
Total Revenue from continu Profit/(loss) before Tax from	o date as for arrent ended amber 2020	Year to date figures for the previous period ended December 31, 2019	Previous year ended March 31, 2020				
	DITED	UNAUDITED	AUDITED				
Maria de la companya della companya	196.57	13,077.92	17,850.03				
Total Revenue from continu	129.40	884.32	1,364.45				
	101.65	826.06	1,202.75				
Profit/(loss) after Tax from			100				
Profit/(loss) before tax from	11000	The state of	*				
Profit/(loss) after tax from	Street, Square, Square,		The second second				

Disclosure Requirements) R www.bseindia.com and on t

Bengaluru, February 04,

itian 33 of the SEBI (Listing Obligations and 1) The above is an extract of change websites viz., www.nseindia.com &

For and on behalf of the Board

Dr. R Anonthonoroyanan Managing Director & CEO



Regd. Office: Chandigarh Road, Ludhiana-141010 Corporate Identity Number (CIN): L17111PB1962PLC002463, PAN: AABCV8088P Website:www.vardhman.com Email: secretarial.lud@vardhman.com

Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31" December, 2020

Sr. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2020 Unaudited	Quarter ended Sept 30, 2020 Unaudited	Quarter ended Dec 31, 2019 Unaudited	Nine Months ended Dec 31, 2020 Unaudited	Nine Months ended Dec 31, 2019 Unaudited	Year ended Mar 31, 2020 Audited
1	Total Income from Operations	(2.35)	8.40	9.47	12.52	14.15	13.82
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Share of Profit/(Loss) of Associates and Exceptional items)	(2.68)	7.97	8.84	11.53	11.83	7.83
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax, Share of Profit/(Loss) of Associates (after Exceptional Items)	(2.68)	7.97	8.84	11.53	11,83	7.83
4	Net Profit/(Loss) for the period after	44.01	22.02	59.99	54.50	123.62	159,71

खबर संक्षेप

एयरफोर्स रोड के मसले पर रक्षा मंत्री सिंह से शर्मा

फरीदाबाद। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के एयरफोर्स रोड 100 मीटर मामले में शुक्रवार को



शर्मा ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अपनी भेंट में विधायक शर्मा ने

रक्षा मंत्री को बताया कि पहले प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा 900 मीटर था जिसे घटाकर पहले 300 मीटर और अब 100 मीटर किया गया है लेकिन इस 100 मीटर इलाके में लोग परेशान हैं।

स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का २ बार होगा फिटनेस

गाजियाबाद। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे फिट हैं या नहीं, इसका पता अब



टेस्ट से लिया जाएगा। इसके लिए वर्ष में दो बार फिटनेस

फिटनेस

टेस्ट लिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट के लिए प्रधानाचार्यों व शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहले चरण में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच शारीरिक विभाग के सभी शिक्षक मौजूद रहें।



ज्वेलर्स सहित शातिर चोर गिरफ्तार. नकदी बरामद

गाजियाबाद। थाना लिंक रोड पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों का सामान बरामद किया है। सीओ साहिबाबाद आलोक दुबे ने बताया कि थाना लिंक रोड पुलिस ने थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर से राशिद, शाहिद और ज्वेलर्स नरेश कुमार को गिरफ्तार

सीएम मनोहर लाल ने बैठक में 11 समस्याओं का निपटारा किया, और कहा कि ये बजट

शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान सहित पांच विषयों पर होगा फोकस

हरिभूमि न्यूज 🕪 गुरुग्राम

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का बजट लोकहित का बजट होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान सहित पांच विषयों पर फोकस होगा।

मुख्यमंत्री जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे थे। शुक्रवार की बैठक में कुल 12 समस्याएं रखी गई थी जिनमें से 11 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार सरकार ने यह प्रथा बनाई थी कि बजट बनाते समय सभी हित धारकों, विधायकों व सांसदो से परामर्श किया जाएगा। इस दौरान बहुत से सुझावों को बजट में शामिल भी किया गया था। इस बार कोरोना के कारण हितधारकों से फिजिकली मीटिंग नहीं हो पाई लेकिन सभी संबंधित को पत्र लिखा गया है कि वे 20 फरवरी तक अपने सुझाव हमें लिखकर भेजे। उनमें से शामिल होने लायक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट लोकहित का होगा जिसमें इस बात का विशेष तौर पर

मुख्यमंत्री जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से हुए रूबरू



जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे उन्हें अवसर देंगे

कष्ट निवारण समिति बैठक में सन 2006 में हरिराणा राज्य औद्योतिक संरचना विकास ਗਿਗ**म (एचएसआईआई**डीसी) द्वारा अधिग्रहित की गई गुरुगाम जिला के 5 गांवों - गाडौली खुर्द, हरसरू, मोहम्मदपुर, खांडसा तथा नरसिंहपुर के विस्थापितों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया

था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आए न्यायालय के आदेशों के अनुसार पॉलिसी बनाकर लाभ पात्रों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे । जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। यह निर्णय एनएसआईआईडीसी के सदन में होगा। इसी प्रकार, सारे होम्स नामक सोसायटी में बिल्डर द्वारा छोड़ी गई किमयों के बारे में शिकायत आज पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सोसायटी 48 एकड में है और इसमें कई टॉवर हैं। सभी टॉवरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग-अलग हैं। किसी टॉवर में डवलेपमेंट चार्जिज को लेकर समस्या है तो किसी में मेन्टेनेंस या बिजली को लेकर।

३९ लाख रुपए का जुर्माना लगाया बैठक में केएमपी एक्सप्रेस वे पर अवैध रूप से चल रहे हॉटमिक्स प्लॉट संबंधी शिकायत पर सनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके संचालक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही को गई है तथा उस पर पर्यावरण हर्जाने के तौर पर 39 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सर्चिव वी उमाशंकर, पिंट्लिक सेफटी, ग्रीवेंस तथा गुड गवर्नेंस एडवाइजर अनिल राव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, गुरूग्राम की मेयर मधु आजाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाशं जरावता. सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक एंव हरियाणा एवो इंडस्टीज के चेयरमैन

राकेश दौलताबाद समेत अन्य रहे।

हॉटमिक्स प्लॉट संबंधी शिकायत पर

कृषि भूमि अलग से की जाएंगी चिंन्हित

सीएम मनोहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें एक प्लॉट पर विकास शुल्क एक बार ही लगेगा। यदि किसी प्लॉट के मालिक को विकास शल्क भरने के लिए नगर निगम या नगरपालिका से नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले भरे गए विकास शुल्क की रसींद दिखा दें, उससे दोबारा शुल्क नही लिया जाएगा। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक एकड़ से कम कृषि भूमि की रजिस्टी को लेकर पिछलें दिनों राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। अब ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि कृषि भूमि अलग से चिनहित होगी और उसकी रजिस्ट्री पर क्लेक्टर रेट भी कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित रेट ही लगेगा। इसी प्रकार सरकार द्वारा प्लॉट के विभाजन को लेकर पूरे प्रदेश में पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके अनुसार प्लॉट के विभाजन के लिए साइज तय की जाएगी। निर्धारित सीमा से नीचे के साईज के प्लॉट का विभाजन नहीं होगा। दंगाईयों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति प्रदेश के सभी नागरिकों की होती है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई करवाने के बारे में नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है।

उत्तराखंड आपदा का एनसीआर पर दिखा असर

पिछले दो दिनों में गंगनहर में पानी और सिल्ट की मात्रा में हुई बढ़ोतरी

चमोली में आई आपदा का असर अब एनसीआर पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया है। यहीं नहीं पानी में रेत यानी सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस वजह से उत्तराखंड से एनसीआर आने वाली गंगाजल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। प्रताप विहार गंगा जल परियोजना के अधिकारी का कहना है कि स्थिति अभी क्लियर नहीं है।



सप्लाई हो सकती है प्रभावित

गाजिराबाद की बात करें तो वैशाली वसंधरा. कौशांबी जैसे पॉश इलाकों मे गंगाजल की सप्लाई होती है। दिवाली के आसपास उत्तराखंड में गंग नहर की सफाई के दौरान सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर पानी में सिल्ट की मात्रा बढती है तो दो से तीन दिनों के लिए गंगाजल की सप्लाई बंद हो सकती है।

लापता व्यक्ति की तलाश



सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नामः मुन्ता बसुर, पुत्रः प्रेम बसुर, पताः मकान नं. ई-132, कपिल विहार, पितमपुरा, दिल्ली, उम्रः 35 साल, कदः 5 फीट 6 इंच, रंगः गेहुँआ, चेहराः गोल . पहनावाः शर्ट, पेंट व जुते पहने हुए, जो दिनांक 19.11.2020 को थाना क्षेत्र सुभाष पैलेस, दिल्ली से लापता हो गया है।

इस संदर्भ में DD No. 30A, दिनांक 26.11.2020, थाना सुभाष पैलेस, दिल्ली में

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अबतक इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

: cic@cbi.gov.in थाना सुभाष पैलेस, दिल्ली वेबसाइट : http://cbi.nic.in फोन: 011-27356336, 27356314 : 011-24368639 दूरभाष : 011-24368638, 24368641 DP/653/NW/2021

गुमशुदा/अपहृत की तलाश



अंजली

लापता/अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 37/21 धारा 363 भा.द.स विनांक 15.01,2021 थाना रनहौला, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है:-**उम्र**ः 16 वर्ष, कदः 5'3", रंगः साफ, चेहराः गोल, कपड़ेः सफेद व काले रंग का टॉप और काले रंग की जीन्स तथा पैरों में काले रंग की चप्पल

पहने हुए है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा/अपहृत लडकी के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें | ई-मेल आईडी - cic@cbi.gov.in वेबराइट: http://cbi.nic.in थानाध्यक्ष

फोन: 011-24368638, 24368641 फैक्स नं.: 011-24368639 DP/668/OD/2021

थाना रनहौला, दिल्ली बाहरी जिला, दिल्ली दुरमाष सं. 011-28363001, 28363002

7 करोड़ की लागत से 4 एकड़ में बन रही इमारत

मंत्री मूलचंद ने मॉडल संस्कृति स्कूल की इमारत का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुक्रवार को बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर-3 में बनाए जा रहे मॉडल संस्कृति स्कूल की निर्माणाधीन इमारत का अचानक निरीक्षण किया।

इस मौके पर उन्होंने कार्य कर रहे ठेकेदारों से कार्य को बेहतर ढंग से करने की बात कही, इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी स्कल की इमारत को जल्द से जल्द तैयार करने के दिशा निर्देश दिए है।



हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मुलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ से आने के बाद बल्लभगढ़ विधानसभा का दौरा किया। सेक्टर 3 में बनाई जा रही सीनियर सेकेंडरी मॉडल संस्कृति स्कूल की इमारत का भी निरीक्षण किया।

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

हरियाणा प्रदेश में जारी चुनावी प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के त्रिवार्षिक चुनाव राज्य सचिव बजरंग लाल जांगड़ा बतौर चुनाव अधिकारी की अध्यक्षता में अलग-अलग डिपार्टमेंटों से आए कर्मचारी

नेताओं की मौजदगी में जनस्वास्थ्य विभाग सेक्टर-11 के प्रांगण में कराए गए। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के निष्पक्ष चुनावी की प्रक्रिया को सफल बनाने का जिम्मा बिजली निगम फरीदाबाद के सर्कल सचिव संतराम लाम्बा के मजबूत कंधों पर रहा व मंच को संभालते हुए चुनावी कार्रवाई को आगे

जयभगवान हरियाणा कर्मचारी महासंघ के चेयरमैन चुने गए

महर्षि दयानंद के जीवन व आदर्शों पर की चर्चा

चुनाव शुरू कराया गया।

बढ़ाया। जिसमे मौजूद सभी

कर्मचारी नेताओं की कोशिशें रही

कि यह चनाव शान्तिपर्ण और किसी

टकराव की परिस्थिति के बिना एक

सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो।

निवर्तमान जिले की कार्यकारिणी

को पहले भंग कराया तत्पश्चात

वर्तमान की नव कार्यकरिणी के लिए

गाजियाबाद। मेवाड़ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार गदिया ने शुक्रवार को कहा कि महर्षि दयानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हें अमल में लाना होगा। अमल में लाने पर ही विश्व में व्याप्त तमाम विवादों और पाखंडों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लोग एक बार जरूर पढ़ें। ऐसे विषयी पर छात्री से चर्चा की।

हथियारों लेकर लूट की योजना बना रहे दो धराए

फरीदाबाद। हथियारों के बल पर लूट की योजना बना रहे दो शातिर बदमाशों को क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा, एक लोहे की रॉड, एक टार्च बरामद की है।

माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड CIN: L67120DL1992PLC047890

पंजीकृत कार्यालय : 10 ए. अंडरहिल लेन, सिविल लाइस, दिल्ली-54 इं मेल आई डी : mymaneyviews@autlook.com फोन नं : 011-23924241, 23930655 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

th.	'विवरण	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त नी		रें। लाख में) समाप्त
er.	iditta	तिमार्ह)	(तेमाई)	तिभाडी	महीने	महीने	वर्ष
	1	31/12/2020 अलेखपरीजित	30,09,2020 अलेखापरीक्षित	31.12.2019 अलेखायरीक्षित	31.12.2020 प्रलेखापरीक्षित		31,03,2020 लेखापरीक्षित
1	प्रचालनी से कुल आय (शुद्ध)	30.48	8.85	8.25	58.98	15.42	(27.51)
2	कर के बद्ध साधारण गतिविश्विगों से गुद्ध लाम/(हानि)	11.29	(4.79)	(13.13)	6,88	(62.22)	(147.16)
3	कर के बाद अवधि (असाधारण मदों के बाद हेतु शुद्ध लाय/ (हार्नि)	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16)
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अबधि हेतु निहित लाम/हानि (कर के बाद)]	11.29	(4.79)	(13.13)	6.88	(62.22)	(147.16)
5	इविवटी शेयर कैपिटल	1000.03	1000.03	1000.03	1000,03	1000.03	1000,03
6	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदौ से पूर्व) (रु 10 /— प्रत्येक के) वेसिक हायल्युटेड	0.113 0.113	(0.048)	(0.131) (0.131)	0.069		(1.471) (1.471)
7	अर्जन प्रशि शेयर (असाधारण मदौं से पूर्व) (रु 10 /— प्रत्येक के) वेसिक : हायल्यटेड	0.113 0.113	(0.048) (0.048)	(0.131) (0.131)			(1.471) (1.471)

। कृते व निदेशक मंडल की ऑर से

Regd.off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044 Corp.Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph.0124-2719000, Fax: 0124-2719100
CIN: L26912DL1991PLC045449, Website: www.sainikfinance.com, Email: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com Extract of Statement of Standalone Financial Results for the quarter ended on 31 December 2020

SI. No.	Particulars	3 months ended (Unaudited)	3 months ended (Unaudited)	Correspond- ing 3 months ended in the previous year (Unaudited)	9 months ended (Unaudited)	9 months ended (Unaudited)	Year to date figures for current year ended (Audited)
12		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income from operations	579.70	1,178.59	746.44	2,457.14	2,674.39	3,409.29
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	91.83	452.07	218,59	675.02	452.11	406.28
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	399,05
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year		_	1			3,329.80
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.84 0.84	4.16 4.16	2,01 2,01	6.20 6.20	4.16 4.16	3.73 3.73

The above is an extract of the detailed format of quartery Financial Result for the quarter ended 31st December 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website

The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th February 2021. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For Sainik Finance & Industries Limited

Rudra Sen Sindhu Director (DIN-00006999)

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बेज नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151 (www.hssc.gov.in)

शद्धिपत्र सचना

इरियाणी कमेचारी चयन आयोग विज्ञा, सं. 1/2021 दिनोंक 10.02.2021 जोकि विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था और एचएसएसर को वेबसाइट अर्थात www.hssc.gov.in पर भी उपलब्ध है, के संदर्भ में, जिसके द्वारा कौशल विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न पदी हेतु यूआरएल पता : http://adv12021.hryssc.in/StaticPages/HomePage.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रपन्न आगंत्रित किये गये थे ्र डम्मीदवारों की जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि विज्ञा. सं. 1/2021 में कुछ नये बिन्दु शामिल किये गये हैं और विभाग द्वारा मैमो नं. 4/10S-2012 पीजीटी-I(2) दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पदों का ग्रैकअप निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

पद (शेष हरियाणा) श्रेणी सं. 1 के पदों का श्रेणीवार विवरण सामान्य एससी बीसीए बीसीबी इंडब्ल्यू कुल ईएसएम (5%) हॉरिजेंटल ५% (पीएचमी हॉर्सिकेंटल) हेनु आरक्षित आरक्षित (हॉरिजेंटल) (बी) अस्थि चिक्तनांग (सी) बधिर एवं मुक (डी) मानसिक बीमारी (ई) मल्टोपल अक्षमता सामान्य एससी बीसी(ए) बीसी(बी) सामान्य एससी वीमी(ए) बीसी(बी) 10 4 534 16 6

जो उम्मीदवार विज्ञापन सं. 4/2015 श्रेणी सं. 16 के तहत पहले ही आवेदन कर चुके हैं और विज्ञा. सं. 1/2021 में वॉर्णत योग्यताओं के अनुसार पात्र हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने शुल्क और आय में उन उम्मीदवारों को एक बार छट देने का निर्णय शिया है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को पुनः आवेदन शुल्क के जमा के साक्ष सहित पुनः आर्थदन करना होगा। उनसे ई-चलान सहित नमें आर्थदन प्रपन्न के अपलीड करने की अपेक्षा के जाती हैं और परीक्षा / सत्यापन के समय उन्हें मूल ई-चालान प्रस्तुत करना होगा। जो उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते और पुनः आवेदन नहीं करना चाहते आवेदन शुल्क के रिफंड हेतु दावा कर सकते हैं। अयोग के दिनांक 29,09,2015 के प्रस्ताव के अनुसार यदि कई उम्मीदवारों के अनिम मैरिट लिस्ट में एक समान अंक आते हैं तो बड़ी आयु के उम्मोदवार को प्राथमिकत

दो जाएगी और उसके बयन पर विचार किया जाएगा। अपोग के दिनांक 23.11,2018 के प्रस्ताव के अनुसार उम्मोदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अर्कों के आधार पर पर्दों की कुल सं. से तीन गुणा के बराबर उम्मोदवार को दस्तावेजों की संबोधा हेतु बुलाया जायेगा। साँगाजिक आर्थिक गानदह के अंक दस्तावेजों को संबोधा के उत्सत जोड़े जाएंगे और केवल उन्हों उम्मीदवारों के जोड़े जाएंगे ज इस्तावेजों की संबीक्षा के उपरांत पात्र होंगे।

दिनांक: 11.02.2021 संवाद विज्ञा. सं.-1159/13/28/2021/1790/88/7 दि. 12.02.21

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला



		-				(3	पशि रु. में)
īħ.	विवरण	समाप्त तिमाही हेतु 31,12,2020 30,09,2020 31,12,2019	हेतु	समाप्त	नी माह	समाप्त वर्ष	
सं.	1991.91	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		(अअंकेशित)	(अअंकेक्सिन)	(अअंकेशित)	(अअंक्रेशित)	(-अअंकेक्षित्)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालतों से कुल आय (शुद्ध)	21,64,037	21,13,654	21,08,856	61,71,441	1,26,69,346	1,47,34,475
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मर्दो से पूर्व)	4,55,620	8,77,403	(4,51,460)	22,04,150	67,09,963	67,80,316
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (असाथारण मदों के बाद)	4,55,620	8,77,403	(4,51,460)	22,04,150	67,09,963	67,80,316
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	3,37,160	5,90,388	(3,34,913)	16,31,070	51.74,724	54,76,566
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) निहित (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाट)]	3,37,160	5,90,388	(3,34,913)	16,31,070	51,74,724	54,76,566
6.	डबिवटी शेवर कैपिटल	50,00,000	50,00,000	50,00,000	50,00,000	50,00,000	50,00,000
7.	रिजर्क्स (पुनर्मूल्यांकन रिजर्न को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्षा की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार			1			21,28,50,166
8.	अर्जन प्रति शंयर (रू. 10 प्रत्येक कें) (निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु) 1. बेसिक 2. डायल्युटेड	0.67 0.67	1.18	25.55	1,000	10.35 10.35	10.95 10.95

टिप्पणी : सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीनेशन एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनीं, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज़ के पास दायर किये गये अअंकेक्षित तैमाहिक और समाप्त नौ माह के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार ऊपर दिया गया है। 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और नी माह हेतु अञ्चेकेक्षित वैमाहिक और समाप्त नी माह के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स www.msei.in पर और कम्पनी को वेबसाइट www.pearlapartments.co.in पर उपलब्ध हैं। कते वर्ल अपारंमेंटम लि

कृष्ण कुमार सेठ (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) डीआइंएन 00005765

वित्त नियंत्रक और कर्मचारी पतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

अब ज्यादातर मांगों का हुआ समाधान

कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में नगर निगम की सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मंडल और वित्त नियंत्रक के बीच वाती हुई। इस वार्ता में वित्त नियंत्रक ने कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों पर सहमति जता दी। अब इन मांगों का प्रोपोजल बनाकर निगमायुक्त को भेजा जाएगा। जिसके बाद इन मांगों को पूर्ण किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर वित्त नियंत्रक विजय धमीजा, एओ विजय कुमार, सुपरीडेंट दीपा मैडम, सुपरीडेंट विनोद गुलाटी

तथा नगर निगम की सफाई

कर्मचारी यनियन के प्रधान



निगम कार्यालय में वित्त नियंत्रक विजय धमीजा व कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलवीर सिंह बालगुहेर के बीच

बलवीर सिंह बालगुहेर, सोमपाल झिझोटिया, श्रीनंद ढकोलिया, जितेन्द्र छाबड़ा, रगबीर चौटाला, चावला, जगदीश बालगृहेर, सुरजकीर, विजयपाल, नैन सिंह व रविन्द्र टांक के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। जिसमें कर्मचारौ प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मख्य मांगें रखी।

ईंधन व खाद्य तेल के बढ़े दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा जापन

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

फरीदाबाद के पर्व विधायक आनंद कौशिक व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत कौशिक के नेतृत्व में शुक्रवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सैलजा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के दिशा-निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीन काले कानूनों और पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों व कमरतोड़ मंहगाई के खिलाफ अपने कार्यालय से सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय तक सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त की अनुपस्थिति मे यह ज्ञापन एसडीएम जितेंद्र कुमार ने लिया।

<u>ये दाम दिन अब प्रतिदिन बढ रहे हैं </u>

कौशिक ने कहा कि देश में पिछले लगभग तीन महिनों से दिल्ली व अन्य कई स्थानों पर इन बिलों के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी हठधर्मिता के चलते इन अन्नदाताओं की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। धरने पर बैठे हुए बहुत से किसानों की मौत भी हो चूकी है, फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं पड रहा है। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत कौशिक ने कहा कि इसके अलावा हम राष्ट्रपति महोदय का ध्यान देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं मंहगाई की ओर भी दिलाना चाहते हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ रहे हैं।

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

No.	1 21132	ended (Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	ended (Unaudited)	ended (Unaudited)	ended (Audited)
H		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income from operations	579.70	1,178.59	746.44	2,457.14	2,674.39	3,409.29
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraord nary Items)	91.83	452,07	218.59	675.02	452.11	406.28
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	399,05
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088:00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year		-	-		4	3,329.80
8	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted:	0.84 0.84	4.16 4.16	2.01 2.01	6,20 6.20	4.16 4.16	3.73 3.73

www.sainikfinance.com

Place: Gurugram (Haryana) Date: 12 February, 2021

स्थान : नई दिल्ली दिनांक । 12 फरवरी 2021

FINANCIAL EXPRESS

1,936.36	1,936.36 [1,936.36
	10	:*:
30.64	-	
	115.4	
	A PART	
(0.24)	(1.17)	(0.31)
(0.24)	(1.17)	(0.31)

lember 31, 2020 filed with the Stock quirements) Regulations, 2015. The on the Stock Exchanges website at td.com.

he Audit Committee at their meeting irs at their meeting held on Friday the

tting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) ounting practices and policies to the

hareholders of the company through S-33 on Earning Per Share, Per Share ity shares.

MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(RAJIV GUPTA) CTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER DIN: 09022964

ına.

rs.com

AND NINE (Rs. in Lacs) Correspond ing Quarter ended 31-12-2019 **Un-Audited** 238 14

28.43

28.43

20.77

20.77 462.53

> 0 45 0.41

is filed with the

Requirements)

d Nine Months

ge website i.e.

polymers.com. mers Limited

eni Satish Rao

ging Directo

DIN: 02435513

Sd/

public, in general, that the undersigned has taken physical possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 8th day of February 2021.

The Borrowers and the Guarantors, in particular, and the public, in general, are hereby cautioned not to deal with the said under-mentioned properties and any dealings with the said properties will be subject to the charge of the State Bank of India and other consortium Lender Banks for an arnount of Rs. 1857,59,71,789,21 (Rupees One Thousand Eight Hundred Fifty Seven Crores Fifty Nine Lakh Seventy One Thousand Seven Hundred Eighty Nine Rupees and Twenty One Paise Only), comprising of Rs. 1010,28,00,000.00 as on 30.09.2017 to SBI, Rs. 169,16,44,213.60 as on 30.11.2017 to UBI, Rs. 148,41,34,358.00 as on 31.12.2017 to Canara Bank, Rs. 132,88,17,408.00 as on 29.12.2017 to Central Bank of India, Rs. 130,93,21,057.00 as on 30.11.2017 to Corporation Bank, Rs. 61,98,30,867.00 as on 31.12.2017 Bank of Baroda, Rs. 35,21,34,231.79 as on 01.12.2017 to IDBI Bank, Rs 99,0800,000.00 as on 30.11.2017 to Dena Bank, Rs. 42,14,89,653.82 as on 30.06.2017 to UCO Bank and Rs 27,50,00,000.00 as on 31.12.2017 to Tamilnad Mercantile Bank aggregating to Rs. 1857,59,71,789.21 (Rupees One Thousand Eight Hundred Fifty Seven Crores Fifty Nine Lakh Seventy One Thousand Seven Hundred Eighty Nine Rupees and Twenty One Paise Only) alongwith future interest on the said amounts at the contractual rates with effect from 01.10.2017, 01.12.2017, 01.01.2018, 30.12.2017 01.12.2017, 01.01.2018, 02.12.2017, 01.12.2017, 01.07.2017 & 01.12.2018 respectively together with all incidental expenses, costs, charges, etc. thereon.

The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Description of the Immovable/Movable Properties

PLACE:Taraori

- H. No. 324/11 measuring 124.44 sq. yards vide Sale deed no. 1270/1 dated 24.11.2006,
- H. No. 325/11 measuring 124.44 sg. yards vide Sale deed no. 1267/1 dated 24.11,2006,
- iii) H. No. 329/11 measuring 87.11 sq. yards vide Sale deed no. 1268/1 dated 24.11.2006,
- iv) H. No. 330/11 measuring 87.11 sq. yards vide Sale deed no. 1269/1 dated 24.11.2006, Situated at Old Anaj Mandi, Subhash Colony, Taraori, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal.

(Owned By: Smt. Poonam w/o Sh. Dinesh Gupta).

DATE: 08.02.2021

AUTHORISED OFFICER

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED

Regd.off: 129 Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035, Ph.: 011-28315036 Fax: 011-28315044 Corp.Off: 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurgaon (Haryana)-122001, Ph.0124-2719000, Fax: 0124-2719100 CIN: L26912DL1991PLC045449, Website: www.sainikfinance.com, Email: info@sainik.org, legal.secretarial@sainikmining.com Extract of Statement of Standalone Financial Results for the quarter ended on 31 December 2020

SI. No.	Particulars	3 months ended (Unaudited)	3 months ended (Unaudited)	Correspond- ing 3 months ended in the previous year (Unaudited)	9 months ended (Unaudited)	9 months ended (Unaudited)	1
	Total Insome from energians	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
1	Total Income from operations	579.70	1,178.59	746.44	2,457.14	2,674.39	3,409.29
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	110.75	615.08	289.85	916.38	600.87	627.04
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	406.28
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	91.83	452.07	218.59	675.02	452.11	399.05
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per previous financial year						3,329.80
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	0.84 0.84	4.16 4.16	2.01 2.01	6.20 6.20	4.16 4.16	3.73 3.73

Notes:-

- The above is an extract of the detailed format of guartery Financial Result for the guarter ended 31st December 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.sainikfinance.com
- The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th February 2021. The auditors have carried out Limited Review of the financial results, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

By order of the Board For Sainik Finance & Industries Limited sd/-Rudra Sen Sindhu

Director (DIN-00006999)

Place: Gurugram (Haryana) Date: 12 February, 2021

New Delhi

Total comprehensive income for the period (5+6) [comprising profit for the period